



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1933 (श0)
(सं0 पटना 41) पटना, मंगलवार, 31 जनवरी 2012

मुख्य अभियंता-2 भागलपुर (मुख्यालय पटना)
ग्रामीण कार्य विभाग
(हार्डिंग रोड बैरक सं0-2 पटना)

आदेश
25 जनवरी 2012

सं0 162—जल संधान विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0, दिनांक 04.02.02, पत्रांक 1337, दिनांक 21.03.07, पत्रांक 1117, दिनांक 7.5.05 एवं पत्रांक 2360, दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2 सहरसा का पत्रांक 579, दिनांक 05.08.2011 एवं जिलाधिकारी सहरसा का पत्रांक 610, दिनांक 17.06.11 के क्रमांक 24 द्वारा मो0 रब्बान पिता-स्व0 मो0 सल्लाउद्दीन, पूर्व दफ्तरी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2 सहरसा को अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा प्राप्त के आलोक में मो0 रब्बान को अधीक्षण अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2, सहरसा के कार्यालय में वर्ग-4 (चार) के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर (पुराना वेतनमान 2550-3200) नया वेतनमान (4400-7440) एवं ग्रेड वेतन 1300 रु0 में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ता तथा अन्य अनुमान भत्तों सहित नियुक्त किया जाता है। वे अपना योगदान, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल-2, सहरसा में वर्ग चार के रिक्त पद के विरुद्ध अनुसेवक के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में योगदान दें दें, अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

2. स्व0 मो0 सल्लाउद्दीन, पूर्व दफ्तरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व मो0 रब्बान पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। उसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान देते समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।

5. अगर मो0 रब्बान की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जाय।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ-पत्रों की मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना

होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संस्था/बोर्ड से सत्यापित करा लिया गया है। अन्य कागजात जाँच करने के पश्चात् ही मो० रब्बान के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।

7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

9. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के सम्बन्ध में घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
ई० अच्छे लाल राम,
मुख्य अभियंता-2 भागलपुर,
ग्रा०का०वि०, (मु०, पटना)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>